



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 2010/पौष 19, 1931

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 2010/PAUSA 19, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

का.आ. 46(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 3 सितम्बर, 2009 तथा 24 नवम्बर, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी, जांच समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि को और 15 जनवरी, 2010 तक बढ़ाते हैं।

2. समिति की अन्य शर्तें और संदर्भ अपरिवर्तनीय रहेंगे।

[सं. एवी-15013/003/2009-डीजी]

रोहित नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2010

S.O. 46(E).—In continuation of this Ministry's notifications of even number dated 3rd September, 2009 and 24th November, 2009, the Competent Authority is pleased to extend the time allotted to the Investigating Committee for submitting its report by 15th January, 2010.

2. The other terms and reference of the Committee will remain unchanged.

[No. AV-15013/003/2009-DG]

ROHIT NANDAN, Jt. Secy.